

## 200 फुट की ऊँचाई पर धरमजयगढ़ क्षेत्र की पहाड़ी में मिला शैलचित्र

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ में गुफा अन्वेषण और शैलचित्र खोज के लिये वखियात पुरो. डी.एस.मालय्या को रायगढ़ ज़िले के धरमजयगढ़ में 200 फुट की ऊँचाई पर स्थिति शैलाश्रय में प्रागैतहासिककालीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं।

### प्रमुख बटि

- पुरो. डी.एस.मालय्या के द्वारा जारी सघन गुफा खोज अभियान में ये शैलचित्र प्राप्त हुए। पुरो. मालय्या ने कहा कि गुफा अन्वेषण अभियान अभी जारी है, अभियान पूर्ण होने पर वसित्त जानकारी साझा किया जाएगा।
- गौरतलब है कि रायगढ़ ज़िले में अभी तक कबरा पहाड़, सधिनपुर, आँगना व उषाकोठी, बाँसाझार, बोतल्दा सहित कुछ अन्य स्थानों से शैलचित्र प्राप्त हुए हैं जो राज्य संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग द्वारा चनिहांकति हैं।
- पुरो. डी.एस. मालय्या द्वारा 1994 से गुफा अन्वेषण अभियान चलाया जा रहा है और 16 अन्य स्थलो पर प्रागैतहासिककालीन शैलचित्र की खोज की गई है जिसमें 2003 में शोखामुड़ा की पंचभया पहाड़ी शरुंखला से प्राप्त वंदनखोह गुफा के शैलचित्र सबसे महत्त्वपूर्ण है जिसे राज्य संस्कृति विभाग के तत्कालीन उप संचालक डॉ. जी एल बादाम ने नवीन खोज करार दिया था।
- राज्य सरकार के पुरातत्त्व संचालनालय के अधिकारियों के अनुसार राज्य में मध्याश्रमीय काल से लेकर ऐतहासिक काल तक के शैलाश्रय मौजूद हैं, जो इतहास और पुरातत्त्व के मानचित्रों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि हो चुके हैं।
- राज्य में सर्वप्रथम चित्रित शैलाश्रयों की खोज सन् 1910 में अंगरेज अनुसंधानकर्ता एंडरसन के द्वारा की गई थी। इसके बाद वर्ष 1918 में इंडिया पेंटगिस में और इनसाईकलोपीडिया ब्रिटनिका के तेरहवें अंक में रायगढ़ ज़िले के सधिनपुर की पहाड़ियों के शैल चित्रों का प्रकाशन हुआ।
- भारतीय इतहासकार अमरनाथ दत्त ने सन् 1923 से 1927 के बीच रायगढ़ ज़िले में व्यापक सर्वेक्षण कर और भी अनेक शैल चित्रों का पता लगाया। उनके बाद डॉ. एन. घोष, डी.एच. गार्डन और पंडित लोचन प्रसाद पांडेय ने भी इस दशा में अध्ययन और अनुसंधान के महत्त्वपूर्ण कार्य किये।
- रायगढ़ ज़िले में सधिनपुर के शैल चित्र ज़िला मुख्यालय रायगढ़ से पश्चिम दशा में लगभग 20 कमी. ऊँची पहाड़ी पर निर्मित हैं। इनकी गनिती दुनिया के सर्वाधिक पुराने शैल चित्रों में होती है। ये शैल चित्र अब लगभग धुंधले हो चले हैं। इनमें सीढ़ीनुमा पुरूषकृति, मत्स्य-कन्या और पशु आकृतियों सहित शिकार के दृश्य भी अंकित हैं।
- सधिनपुर के अलावा ज़िला मुख्यालय रायगढ़ से केवल आठ कमी. पूर्व में स्थिति कबरा पहाड़ पर निर्मित चित्र गैरिक रंग के हैं। इनमें जंगली भैंसा, कछुआ और पुरूष आकृतियों के साथ ज्यामतिक अलंकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
- आर्द मानवों के शैल चित्रों की दृष्टि से रायगढ़ ज़िला काफी समृद्ध है। सधिनपुर के शैलाश्रयों से दक्षिण पश्चिम में लगभग 17 कमी. की दूरी पर ग्राम बसनाझर (तहसील खरसिया) की पहाड़ियों में तो आर्द मानवों द्वारा तीन सौ से अधिक चित्र अंकित किये गए हैं। जिनमें हाथी, गेंडा, जंगली भैंसा, सामूहिक नृत्य और शिकार आर्द के दृश्य अंकित हैं।
- तहसील मुख्यालय खरसिया से केवल आठ कमी. ग्राम बोतल्दा के नज़दीक स्थिति पहाड़ियों में करीब दो हज़ार फीट की ऊँचाई पर सहि गुफा स्थिति है, जिसकी दीवारों पर पशुओं के शिकार दृश्य और ज्यामतिक अलंकरण हज़ारों वर्ष पहले के मानव जीवन की हलचल का संकेत देते हैं।
- तहसील मुख्यालय खरसिया से बारह कमी. पर सूती घाट के नज़दीक ग्राम पतरापाली के पास की पहाड़ियों में भंवरखोल नामक प्रसिद्ध शैलाश्रय है, जिसकी दीवारों पर मत्स्य-कन्या, जंगली भैंसा, भालू, मानव हथेली और भारतीय संस्कृति के शुभंकर 'स्वास्तिक' चिन्ह भी अंकित हैं। ज़िला मुख्यालय से लगभग 72 कमी. पर उत्तर दशा में धरमजयगढ़ के नज़दीक आँगना पहाड़ पर इस प्रकार के एक सौ से अधिक शैलचित्र देखे जा सकते हैं। इसमें बैलों के समूह और यहाँ तक कि दस सरिों वाली मानव आकृति भी शामिल हैं।
- इतना ही नहीं बल्कि ज़िला मुख्यालय से ही तीस कमी. पर करमागढ़ की पहाड़ियों में तो सवा तीन सौ से भी ज्यादा चित्रांकन हज़ारों वर्ष पहले किये गए हैं। इनमें ज्यामतिक आकृति सहित अन्य कई आकार प्रकार के चित्र उल्लेखनीय हैं।
- रायगढ़ से ही बारह कमी. पर टीपा खोल जलाशय के नज़दीक खैरपुर की पहाड़ी में पशु-पक्षियों की आकृति वाले शैल चित्र भी दर्शकों के लिये कौतुहल का केंद्र हैं। खरसिया से दो कमी. पर ग्राम सोनबरसा की पहाड़ी में अमर गुफा, ज़िला मुख्यालय रायगढ़ से 32 कमी. पर ग्राम भैंसगढ़ी, बलियासपुर-रायगढ़ मार्ग पर सूती घाट तथा ज़िले के ही तहसील मुख्यालय सारंगढ़ के नज़दीक ग्राम गाताडीह और सरिली डांगरी की पहाड़ियों में बने शैलाश्रय और शैल चित्र भी पुरातत्त्ववर्दों के लिये अनुसंधान का विषय बने हुए हैं।

